

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या- 03

दिनांक- 16.01.2021

स्वाट टीम बाराबंकी द्वारा अन्तर्जनपदीय गैंग के 05 शातिर नकबजन/चोर गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में सोने/चांदी के आभूषण, लाखों की नकदी, 01 अदद अवैध तमंचा कारतूस सहित 02 मोटर साइकिल बरामद ।

जनपद बाराबंकी में घटित चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0 गौतम के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम के नेतृत्व में चोरों/लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में दिनांक-16.01.2021 को मैनुअल इंटेलिजेंस व सर्विलांस के आधार पर 05 शातिर चोर 1- अहमद दर्जी पुत्र कबीर अहमद निवासी मोहल्ला नूरबाग कस्बा व थाना टिकैतनगर बाराबंकी हाल पता मौलाना जी का मकान अशदनगर बलरिया हजाराबाग कोतवाली नगर बाराबंकी, 2- अदनान खां पुत्र बबू खान निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी, 3- जुम्बन पुत्र मुन्ना खां निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी, 4- करन उर्फ चट्टू मल्लाह पुत्र भूखन निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी, 5- दानिश पुत्र नौशाद खां निवासी कांशीराम कालोनी बड़ी लाइन हड्डीगंज थाना कोतवाली नगर बाराबंकी को समय 23.45 बजे कुरौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न स्थानों पर की गयी चोरी का सामान 02 अदद सोने की चैन, 02 अदद चांदी के चैन, 04 अदद सोने की अंगूठी, 02 चांदी की अंगूठी, 01 अदद नाक की कील, 01 अदद कमरपेटी, 14 जोड़ी बिछिया, 13 जोड़ी पायल, 01 अदद मंगलसूत्र, 02 अदद मांगबेदी, 01 जोड़ी झुमकी, 05 अदद चांदी का सिक्का, 02 अदद नथुनी, 01 जोड़ी सोने टप्स, 01 जोड़ी पाजेब, 01 चांदी का गिलास, 01 जोड़ी कान की बाली, 01 चांदी का गुच्छा, 01 थारा, 01 बटुआ, 01 लाख 15 हजार नकद, 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद मोटर साइकिल चोरी की बरामद किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-65/2021 धारा 41/411 भादवि व मु0अ0सं0-66/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है । इनके द्वारा चोरी की घटना कारित करने से पहले सब्जी बेचने के बहाने से घूम-घूम कर घरों की रेकी की जाती है । चोरी करने हेतु ऐसे घरों को चिन्हित किया जाता है जहां रात्रि में बाहर से ताला बन्द रहता हो या सुनसान स्थान पर हो और बन्द घरों के ताले व कुन्डा को तोड़कर चोरी की घटना कारित की जाती है । अभियुक्तगणों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही कर नियमानुसार सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी । गिरोह द्वारा जनपद लखनऊ, बहराइच, अयोध्या में चोरी/नकबजनी की घटनाएं कारित करना बताया गया है जिसके सम्बन्ध में विवरण एकत्र किया जा रहा है ।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि बाराबंकी में विभिन्न स्थानों पर लगातार चोरी की घटनाएं कारित की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- दिनांक 20.10.2020 को वादी श्री अखिलेश वर्मा निवासी शिवाजीपुरम कालोनी थाना कोतवाली नगर बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 18.10.2020 की रात में घर ताले

तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-881/2020 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2- दिनांक 09.12.2020 को वादी श्री अनिल त्रिपाठी पुत्र विजय बहादुर निवासी गायत्रीनगर विकास भवन रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 08/09.12.2020 की रात में अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-1123/2020 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

3- दिनांक 11.09.2020 को वादी श्री गौरव मिश्रा पुत्र बृजेश मिश्रा निवासी विला-डी-13 थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10.09.2020 की रात में सलोन का शटर तोड़कर महंगे कास्मेटिक के सामान व नकदी चोरी कर ली गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-711/2020 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

4- दिनांक 23.11.2020 को वादी श्री दुष्यन्त सिंह पुत्र स्व0 प्रमेश कुमार निवासी लक्ष्मणपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 20/21.11.2020 को रात में अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे पिपरमेंट के 02 करपा व सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना सतरिख में मु0अ0सं0 300/2020 धारा 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

5- दिनांक 21.12.2020 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र रामलखन वर्मा निवासी ग्राम हासेमऊ थाना सतरिख जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 12/13.12.2020 की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा घर में अज्ञात चोरों द्वारा सोने-चांदी के जेवरात व 30 हजार रुपये नकद व अन्य कागजात बीमा सम्बन्धी चुरा लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना सतरिख में मु0अ0सं0 322/2020 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

6- दिनांक 20.12.2020 को वादी श्री मंशाराम पुत्र छंगालाल निवासी ग्राम सैनवासी मजरे नन्दनाकला थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 19/20.12.2020 की रात में घर की दीवाल फांदकर घर से पिपर मेन्ट का तेल, सोने-चांदी के जेवरात और 38,000/-रूपये नकद चोरी कर लिया गया है, इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0 480/2020 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

7- दिनांक 21.12.2020 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र राम सागर निवासी मीरनगर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 20/21.12.2020 की रात में घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर से सोने-चांदी के जेवरात और 15000/-रूपये नकद चोरी कर लिया गया, इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0 482/2020 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

#### नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1- अहमद दर्जी पुत्र कबीर अहमद निवासी मूल मोहल्ला नूरबाग कस्बा व थाना टिकैतनगर बाराबंकी

हाल पता-मौलाना जी का मकान अशदनगर बलरिया हजाराबाग कोतवाली नगर बाराबंकी, (उम्र-24 वर्ष, अनपढ़)

2- अदनान खां पुत्र बब्बू खान निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी, (उम्र-20 वर्ष, अनपढ़)

- 3- जुम्मन पुत्र मुन्ना खां निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी,(उम्र-26 वर्ष, अनपढ़)
- 4- करन उर्फ चट्टू मल्लाह पुत्र भूखन निवासी ग्राम गणेशपुर थाना रामनगर बाराबंकी,(उम्र-19, अनपढ़ )
- 5- दानिश पुत्र नौशाद खां निवासी कांशीराम कालोनी बड़ी लाइन हड्डीगंज थाना कोतवाली नगर बाराबंकी (उम्र-23, अनपढ़ )

### बरामदगी-

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1- 02 अदद सोने की चैन,                                     | 2- 02 अदद चांदी के चैन,     |
| 3- 04 अदद सोने की अंगूठी,                                  | 4- 02 चांदी की अंगूठी,      |
| 5- 01 अदद नाक की कील,                                      | 6- 01 अदद कमरपेटी,          |
| 7- 14 जोड़ी बिछिया,  | 8- 13 जोड़ी पायल,           |
| 9- 01 अदद मंगलसूत्र,                                       | 10- 02 अदद मांगबेदी,        |
| 11- 01 जोड़ी झुमकी,  | 12- 05 अदद चांदी का सिक्का, |
| 13- 02 अदद नथुनी,  | 14- 01 जोड़ी सोने टप्स,     |
| 15- 01 जोड़ी पाजेब,  | 16- 01 चांदी का गिलास,      |
| 17- 01 जोड़ी कान की बाली,                                  | 18- 01 चांदी का गुच्छा,     |
| 19- 01 थारा,   | 20- 01 बटुआ,                |
| 21- 01 लाख 15 हजार नकद,                                    |                             |
| 22- 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर,    |                             |
| 23- 01 अदद मोटर साइकिल यमाहा नम्बर-यूपी 41 एन 6999 चोरी की |                             |
| 24- 01 अदद मोटर साइकिल पल्सर (बड़ेल से चोरी )              |                             |

### आपराधिक इतिहास-

- अहमद दर्जी पुत्र कबीर अहमद निवासी मूल मोहल्ला नूरबाग कस्बा व थाना टिकैतनगर बाराबंकी
1. मु0अ0सं0-248/17 धारा 392 भादवि0 थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
  2. मु0अ0सं0-301/17 धारा 392 भादवि0 थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
  3. मु0अ0सं0-328/17 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
  4. मु0अ0सं0-329/17 धारा 307 भादवि0 थाना थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी

### पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
2. हे0का0 इदरीश खां, हे0 का0 बलिकरन स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
3. का0 आदिल हासमी, का0 अंकुश शंखवार स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
4. का0 प्रवीण शुक्ला, का0 चालक बृजेश यादव स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
5. उ0नि0 श्री राजेश पटेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी